

## वन उत्पादकता संस्थान, राँची



विषयवस्तु : प्रजातियों का संरक्षण (**Protect our Species**),  
दिनांक : **22.04 2019**

संस्थान के निदेशक एवं समूह समन्वयक(अनुसंधान) के निर्देशन में दिनांक 22.04.2019 को संस्थान के सभागार में पृथ्वी दिवस, 2019 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. संजय सिंह की अध्यक्षता में की गई।

इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक डा. माल्विका रे के द्वारा पृथ्वी दिवस, 2019 के विषयक पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इन्होंने भूमंडल के विभिन्न अवयवों की विस्तार से चर्चा की एवं प्रदूषण के कारण प्रभावित जैव, वनस्पतिये एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण के पहलुओ पर प्रकाश डाला। वातावरण में बढ़ते कार्बन के कारण हो रहे भूमंडलीय उष्मीकरण से नुकसान एवं इसके निराकरण को विभिन्न उपायों से अवगत कराया तथा विलुप्त होती प्रजातियों एवं उनकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर सेकेरेड मिशन हाई स्कूल के शिक्षक तथा 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेकेरेड मिशन हाई स्कूल के शिक्षक श्री अशोक कुमार ने भी पृथ्वी दिवस, 2019 पर बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव के बारे में अवगत कराया। पौलिथिन से बढ़ते प्रदूषण एवं घटते प्रजातियों को रोकने पर विचार रखा।

इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. संजय सिंह ने पृथ्वी दिवस, 2019 के मूल विषयक “प्रजातियों – संततियों के संरक्षण” की विस्तार से व्याख्या की। पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण एवं प्रजातियों के हास के लिए मानव, उद्योगिककरण वनो का दोहन आदि कारण हैं।

इस अवसर पर कन्हाइ लाल डे ने भी बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण से प्रजातियों के हास एवं वचाव के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा सुरक्षा की चर्चा की। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक और अधिकारियों ने भी भाग लिया ।

कार्यक्रम का संचालन वैज्ञानिक श्रीमति रुबी सुषाणा कुजूर ने किया एवम धन्यवाद ज्ञापन श्री रवि शंकर प्रसाद ने किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री एस. एन. वैद्य, श्री निसार आलम, श्री बी. डी. पंडित , श्री सूरज कुमार, श्री बसंत कुमार एवम श्री बिनोद राम ने अपना योगदान दिया।



